



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 15, 2003/फाल्गुन 24, 1924

No. 11]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 15, 2003/PHALGUNA 24, 1924

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पुस्तक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)
General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2003

सा. का. नि. 118.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 की धारा (2) के अनुसरण में, राष्ट्रपति एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :

कि सिक्किम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद् श्री नॉथोमबम सूरजमणी सिंह, जिन्हें गौहाटी उच्च न्यायालय से स्थानान्तरित किया गया है, सिक्किम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान अपने वेतन के अतिरिक्त 2,600 रुपये (दो हजार छह सौ रुपये मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

[संख्या. के. 11017/5/2003-यू. एस.-I/II]

दुर्गादास गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

New Delhi, the 28th February, 2003

G. S. R. 118.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :

That Shri Justice N. Surjamani Singh, Judge of the Sikkim High Court, who has been transferred from the Gauhati High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 2600 (Rupees two thousand and six hundred) per month, for the period of his service as a Judge of the Sikkim High Court.

[No. K. 11017/5/2003-US-I/II]

DURGADAS GUPTA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2003

सा. का. नि. 119.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 की धारा (2) के अनुसरण में, राष्ट्रपति एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :

कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायविद् श्री तरुन चैटर्जी, जिन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय से स्थानान्तरित किया गया है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान अपने वेतन के अतिरिक्त 3000 रुपये (तीन हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

[संख्या. के. 11017/5/2003-यू. एस.-I/II]

दुर्गादास गुप्ता, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 28th February, 2003

G. S. R. 119.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :

That Shri Justice Tarun Chatterjee, Chief Justice of the Allahabad High Court, who has been transferred from the Calcutta High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 3000/- (Rupees three thousand) per month, for the period of his service as a Chief Justice of the Allahabad High Court.

[No. K. 11017/5/2003-US-I/II]

DURGADAS GUPTA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2003

सा. का. नि. 120.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 की धारा (2) के अनुसरण में, राष्ट्रपति एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :

कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायविद् श्री अनिल देव सिंह, जिन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थानान्तरित किया गया है, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान अपने वेतन के अतिरिक्त 3000/- रुपये (तीन हजार रुपये मात्र) प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

[संख्या. के. 11017/5/2003-यू. एस.-I/II]

दुर्गादास गुप्ता, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 28th February, 2003

G. S. R. 120.—In pursuance of Clause (2) of article 222 of the Constitution of India, the President hereby makes the following order namely :

That Shri Justice Anil Dev Singh, Chief Justice of the Rajasthan High Court, who has been transferred from the Delhi High Court, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance of Rs. 3000 (Rupees three thousand) per month, for the period of his service as Chief Justice of the Rajasthan High Court.

[No. K. 11017/5/2003-US-I/II]

DURGADAS GUPTA, Jt. Secy.

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(व्यव विभाग)

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2003

सा. का. नि. 121.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 569 (ई) दिनांक 30 सितम्बर, 1997 के आगे और श्री मोहम्मद असलम तथा अन्यो बनाम भारत संघ के मामले पर केन्द्रीय प्रशासनिक पंचाट (कैट) की प्रधान शाखा द्वारा दिए गए आदेश संख्या 1549/2001

दिनांक 24-10-2002 के अनुसरण में राष्ट्रपति सहर्ष अधिसूचित करते हैं कि केन्द्रीय सरकार में डॉटा एन्ट्री ऑपरेटर ग्रेड 'बी' के पदों के लिए संशोधित वेतनमान इस प्रकार होगा :—

क्रम सं.	पद	वर्तमान वेतनमान (रुपए)	संशोधित वेतनमान (रुपए)	रिपोर्ट की पैराग्राफ संख्या
XXVI.	इलेक्ट्रॉनिक डॉटा प्रोसेसिंग स्टाफ			
(ई)	डॉटा एन्ट्री ऑपरेटर ग्रेड 'बी'	1350-30-1440-40- 1800-50-2200	4500-125-7000	55.71

उपर्युक्त निर्दिष्ट संशोधित वेतनमान 1 जनवरी, 1996 से लागू समझे जाएंगे।

[फा. सं. 50/1/97-कार्या. कक्ष]

उषा माथुर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 3rd March, 2003

G. S. R. 121.—Further to this Department's Notification No. G.S.R. 569(E) dated the 30th September, 1997 and in accordance with the directions given in Order dated 24-10-2002 of the Principal Bench of CAT in O.A. No. 1549/2001 filed by Shri Mohd. Aslam & Ors. Vs. UOI, the President is pleased to notify that the revised pay scale for the post of Data Entry Operator Grade 'B' in the Central Government shall be as under :—

Sl. No.	Posts	Present Scale (Rs.)	Revised Scale (Rs.)	Paragraph No. of Report
XXVI	Electronic Data Processing Staff			
(e)	Data Entry Operator Grade 'B'	1350-30-1440-40- 1800-50-2200	4500-125-7000	55.71

The above-mentioned revised scale of pay shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 1996.

[F. No. 50/1/97-IC]

USHA MATHUR, Jt. Secy.

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2003

सा. का. नि. 122.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय जल आयोग में (विभागीय कैटीन) अनुसूचिवीय समूह "घ" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय जल आयोग (विभागीय कैटीन) अनुसूचिवीय समूह "घ" पद भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1. चाय/काफी मेकर	2* (2003) *(अकानूनी कैटीन के प्रवर्ग के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' अराजपत्रित अनुसचिवीय	2610-60- 3150-65- 3540 रु.	अचयन	नहीं	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं			परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	
8		9			10	
लागू नहीं होता		लागू नहीं होता			लागू नहीं होता	
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता				प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा		
11				12		
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।				प्रोन्नति : ऐसा वाश ब्याय/सफाई कर्मचारी जिसने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा ही है।		

11

12

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी —

(i) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 2550-55-2660-60-3200 रु. या समतुल्य वेतनमान में, नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो।

टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह 'घ' विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे :—

लागू नहीं होता

1. अपर सचिव, केन्द्रीय जल आयोग —अध्यक्ष
2. अनुभाग अधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग —सदस्य
3. अनुभाग अधिकारी, जल संसाधन मंत्रालय —सदस्य

1	2	3	4	5	6	7
2. बैरा	19* (2003) *(अकानूनी कैटीन के प्रवर्ग के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' अराजपत्रित अनुसचिवीय	2610-60- 3150-65- 3540 रु.	अचयन	नहीं	18-25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,

अन्य पिछड़े वर्गों और कोई अन्य श्रेणी के लिए शिथिल कर जा सकती है।

टिप्पण 2 : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई अन्य आयु छूट आकलित के साथ शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 3:—आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।
(न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8	9	10	11
<p>आवश्यक :</p> <p>(क) किसी मान्यताप्राप्त स्कूल या संस्था से 8वीं स्तर पास या समतुल्य : और</p> <p>(ख) बैरा के रूप में छह मास का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1 : अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>	नहीं	दो वर्ष (केवल सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए)	20 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; और 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

12	13	14
<p>प्रोन्नति : ऐसा सफाई कर्मचारी/वाश ब्याय/जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा, के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी —</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 2550-55-2660-60-3200 रु. या समतुल्य के वेतनमान में, नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>समूह "ब" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अवर सचिव, केन्द्रीय जल आयोग —अध्यक्ष 2. अनुभाग अधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग —सदस्य 3. अनुभाग अधिकारी, जल संसाधन मंत्रालय—सदस्य 	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
3. वाश ब्याय	6* (2003) *(अकानूनी कैटीन के प्रवर्ग के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	2550-55- 2660-60- 3200 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	18-25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और कोई अन्य श्रेणी के लिए शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 :—अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई अन्य आयु छूट आकलित के साथ शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 3 :—आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8	9	10	11
<p>वांछनीय : प्राइमरी स्कूल स्तर पास।</p> <p>टिप्पण 1 अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2 अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

12	13	14
लागू नहीं होता	<p>समूह "ब" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अवर सचिव, केन्द्रीय जल आयोग —अध्यक्ष 2. अनुभाग अधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग —सदस्य 3. अनुभाग अधिकारी, जल संसाधन मंत्रालय —सदस्य 	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
4. सफाई कर्मचारी	<p>3* (2003)</p> <p>*(अकानूनी कैंटीन के प्रवर्ग के परिवर्तन किया जा सकता है)</p>	<p>साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ'</p> <p>अराजपत्रित अनुसचिवीय अनुसार</p>	<p>2550-55-</p> <p>2660-60-</p> <p>3200 रु.</p>	लागू नहीं होता	नहीं	<p>18-25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और कोई अन्य श्रेणी के लिए शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2 : अनुसूचित जाति/अनुसूचितजनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई अन्य आयु छूट आकलित के साथ शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 3:—आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।</p>

7

(न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली निशुक्ति की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8	9	10	11
<p>चांछनीय : प्राइमरी स्कूल स्तर पास।</p> <p>टिप्पण 1 अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2 अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>	<p>लागू नहीं होता</p>	<p>दो वर्ष</p>	<p>सीधी भर्ती द्वारा।</p>
12	13	14	
<p>लागू नहीं होता</p>	<p>समूह "ब" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :—</p> <ol style="list-style-type: none">1. अवर सचिव, केन्द्रीय जल आयोग —अध्यक्ष2. अनुभाग अधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग—सदस्य3. अनुभाग अधिकारी, जल संसाधन मंत्रालय—सदस्य	<p>लागू नहीं होता।</p>	

[सं. 12/2003/फ. सं. 35/4/2002—स्थापना एक]

अशोक झा, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 14th February, 2003

G. S. R. 122.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Non-Ministerial Group 'D' posts (Departmental Canteens) in the Central Water Commission, namely :—

1. (1) **Short title and commencement.**—These rules may be called the Central Water Commission Non-Ministerial Group 'D' Posts (Departmental Canteens) Recruitment Rules, 2003

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post
1	2	3	4	5
1. Tea/Coffee Maker	2* (2003) *Subject to variation dependent on category of non-statutory canteen.	General Central Service Group 'D' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 2610-60-3150-65-3540	Non-selection
Whether the benefit of added years of service is admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972				
6		Age for direct recruits		Educational and other qualification required for direct recruits
7		8		
No		Not applicable		Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods
---	-----------------------------	--

9	10	11
Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation

In case of recruitment by promotion/deputation absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
---	--	---

12	13	14
----	----	----

Promotion :	Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of :—	Not applicable
--------------------	--	----------------

Wash-Boy/Safai Karamchari with two years regular service in the grade.

Note :—Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation : Officers under the Central Government:—

(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or

(ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 2550-55-2660-60-3200 or equivalent in the parent cadre/department.

Note : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date for receipt of applications.

1. Under Secretary, Central Water Commission—Chairman
2. Section Officer, Central Water Commission—Member
3. Section Officer, Ministry of Water Resources—Member

1	2	3	4	5
2. Bearer	19* (2003) *Subject to variation dependent on category of non-statutory canteen.	General Central Service Group 'D' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 2610-60-3150-65-3540	Non-selection

6	7	8
No	<p>Between 18 to 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years.)</p> <p>Note 1: Relaxable for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes and certain other categories as notified by the Central Government from time to time.</p> <p>Note 2: Relaxable cumulatively with any other age relaxation for the Scheduled Castes/the Scheduled Tribes/Other Backward Classes.</p> <p>Note 3: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahual and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep).</p> <p>In respect of posts, the appointments to which are made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit, in each case be the last date upto which the employment exchanges are asked to submit the names.</p>	<p>(a) 8th standard pass or equivalent from a recognised School or Institution; and</p> <p>(b) Six months experience as Bearer.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates belonging to the Scheduled Castes/the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>
9	10	11
No	Two years (for direct recruits only)	20% by promotion, failing which by deputation; and 80% by direct recruitment.
12	13	14
<p>Promotion :</p> <p>Safai Karamchhari/Wash Boy with two years regular service in the grade.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation : Officers under the Central Government :—</p> <p>(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or</p> <p>(ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 2550-55-2660-60-3200 or equivalent in the parent cadre/department.</p> <p>Note : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date for receipt of application.</p>	<p>Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of :—</p> <ol style="list-style-type: none"> Under Secretary, Central Water Commission —Chairman Section Officer, Central Water Commission —Member Section Officer, Ministry of Water Resources —Member 	Not applicable

1	2	3	4	5
3. Wash Boy	6* (2003) *Subject to variation dependent on category of non-statutory canteen.	General Central Service Group 'D' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Not applicable
6	7	8		
No	<p>Between 18 to 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years).</p> <p>Note 1: Relaxable for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes and certain other categories as notified by the Central Government from time to time.</p> <p>Note 2: Relaxable cumulatively with any other age relaxation for the Scheduled Castes/the Scheduled Tribes/the Other Backward Classes.</p> <p>Note 3: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahual and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep).</p> <p>In respect of posts, the appointments to which are made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit, in each case be the last date upto which the employment exchanges are asked to submit the names.</p>	<p>Desirable : Primary School Standard pass.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates belonging to the Scheduled Castes/the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>		
9	10	11		
Not applicable	Two years	By direct recruitment		
12	13	14		
Not applicable	<p>Group 'D' Departmental Promotion Committee consisting of :—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Under Secretary, Central Water Commission—Chairman 2. Section Officer, Central Water Commission—Member. 3. Section Officer, Ministry of Water Resources—Member 	Not applicable.		

1	2	3	4	5
4. Safai Karamchari	3* (2003) *Subject to variation dependent on category of non-statutory canteen.	General Central Service Group 'D' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 2550-55-2660-60-3200/-	Not applicable
6	7	8		
No	<p>Between 18 to 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years).</p> <p>Note 1: Relaxable for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes and certain other categories as notified by the Central Government from time to time.</p> <p>Note 2: Relaxable cumulatively with any other age relaxation for the Scheduled Castes/the Scheduled Tribes/the Other Backward Classes.</p> <p>Note 3: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep).</p> <p>In respect of posts, the appointments to which are made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit, in each case be the last date upto which the employment exchanges are asked to submit the names.</p>	<p>Desirable : Primary School Standard pass.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates belonging to the Scheduled Castes/the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>		
9	10	11		
Not applicable	Two years	Direct recruitment		
12	13	14		
Not applicable	<p>Group 'D' Departmental Promotion Committee Consisting of :—</p> <p>1. Under Secretary, Central Water Commission—Chairman</p> <p>2. Section Officer, Central Water Commission—Member</p> <p>3. Section Officer, Ministry of Water Resources—Member</p>	Not applicable.		

[No. 12/2003/File No. 35/4/2002-Estt. I]

ASHOK JHA, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2003

सा. का. नि. 123.—संशोधन करने वाली अधिसूचना संख्या ए-12018/3/2002-ई.एस.ए. (एलबी) जिसमें दिनांक 26-12-2002 को प्रकाशित भारत के राजपत्र संख्या जीएसआर.-414 में समूह "घ" पदों (दफ्तरी, कनिष्ठ गैस्टेस्टर ऑपरेटर, रिकार्ड सॉर्टर, चपरासी, चौकीदार एवं सफाईवाला) के भर्ती नियमों को अधिसूचित किया गया था, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित पाद टिप्पणी को जुड़ा हुआ समझा जाए :—

"टिप्पणी"—मुख्य भर्ती नियम भारत के राजपत्र में जो दिनांक 26-12-78 के जीएसआर संख्या-66, 23-12-88 के जीएसआर संख्या-12, 24-01-89 के जीएसआर संख्या 110 के द्वारा प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् दिनांक 23-02-96 के जीएसआर संख्या 123 के द्वारा संशोधित किए गए।

[फा. सं. ए-12018/3/2002-ई एस ए (एलबी)]

सुश्री बीना रानी विज, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

CORRIGENDUM

New Delhi, the 3rd March, 2003

G. S. R. 123. —In the amendment notification No. A-12018/3/2002-ESA(LB) notifying the recruitment rules for Group-D, Posts (Daftary, Jr. Gest. Operator/Record Sorter, Peon, Chowkidar and Safaiwala) published in the Gazette of India vide GSR. 414 dated 26-12-2002, the following foot note may be treated as incorporated in the said notification :—

"Note": The principal recruitment rules were published in the Gazette of India vide GSR No. 66 dated 26-12-78, GSR No. 12 dated 23-12-88, GSR No. 110 dated 24-1-89 and subsequently amended vide GSR No. 123 dated 23-2-96.

[F. No. A-12018/3/2002-ESA(LB)]

Ms. BINA RANI VIJ, Under Secy.